

प्रेस नोट

जनपद

रामपुर

दिनांक 26.11.2021

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

श्रीमान जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन रामपुर में अपराध गोष्ठी कर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए निर्देश-

दिनांक 25-11-2021 को श्रीमान जिलाधिकारी, रामपुर श्री रविन्द्र कुमार मादड़ तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष में अपराध गोष्ठी की। अपराध गोष्ठी में कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण रहा, जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने के लिए समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत प्रस्तावित निरोधात्मक कार्यवाही व चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराए जाने हेतु संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने की समीक्षा की गई, इसके साथ ही अवैध कच्ची शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने, चोरी, लूट व नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु कस्बा व ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त बढ़ाने, बैंक व लेनदेन वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने तथा प्रतिदिन बैंक ड्यूटी में जाने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी के सम्बन्ध में ब्रीफ करने एवं सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दृश्यता, गतिशीलता, सजगता एवं सतर्कता बनाये रखने, शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही किए जाने, गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत वांछित अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी किए जाने, गिरोहबंद अधिनियम से संबंधित अभियुक्तों की चल-अचल संपत्ति को धारा 14(1) गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत कुर्क कराए जाने की कार्यवाही, जिला बदर अपराधियों की गिरफ्तारी किए जाने हेतु निर्देशित किया। लंबित विवेचनाओं विशेषकर अनावरित अभियोगों के निस्तारण, वांछित अभियुक्तों, इनामिया, एनबीडब्ल्यू के विरुद्ध अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही करने, मिशन शक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये थानो पर गठित एंटीरोमियों टीमों की

क्रियाशीलता निरंतर जारी रखने, आम जनमानस में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने हेतु पैदल गश्त को और अधिक क्रियाशील करने का निर्देश दिया। जनता द्वारा दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्रों, लंबित जनशिकायतो एवं आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों की गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण व आम जनता के साथ अच्छा बर्ताव करते हुए उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी तथा समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, प्रतिसार निरीक्षक अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।